आई० एम० सी० मिटिंग 26/4/2012

आज दिनांक 30/4/2012 को शास० आई० टी० आई० हिर्री के प्राचार्य कक्ष में मिटिंग हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुवे ।

1, सर्व श्री विनोद पिल्लाई —
2, श्री टी० बोस —
3, श्री राजेश श्रीवास्तव —
4, श्री एस० के० मिश्रा —
5 श्री, अनिल गाडिया —
6, श्री टी० एस० धुव (बे० बाजार)
7) श्री रमाकांत दुबे — Ramakant
8) श्री बी. के. साहू — B. Sahu

30/4

30/04/12

साथ ही निम्न एजेंडा पर चर्चा हुई

① फिटर व्यवसाय के संबंधीकरण हेतु चर्चा

सचिव के द्वारा फिटर व्यवसाय के संबंधीकरण चर्चा करते हुवे माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा कि पूर्व में फिटर व्यवसाय में एक लेथ मशीन कमी को दर्शाते हुवे संबंधीकरण नही किया गया था जिस पर अध्यक्ष महोदय ने लेथ मशीन खरीद करने हेतु संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण से अनुमति हेतु कहा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया और सभी सदस्यों ने अनुमति मिलने पर क्रय करने हेतु सलाह किया । जिसका सुझाव प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा सुझाव पेटी के लिखा गया था, जिसको अमल को तैयार किया गया/

② नवीन भवन में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन व्यवसायों के संबंधीकरण हेतु चर्चा

सचिव द्वारा एजेंडा बिन्दु 2 पर चर्चा प्रारंभ करते हुवे बताया गया कि आई० एम० सी० द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन व्यवसाय के संबंधीकरण होना है जिस पर कहा गया एनेक्चर III भरकर संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर में जमा करें साथ ही समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किया जावे

आई० एम० सी० मिटिंग 26/4/2012

आज दिनांक 30/4/2012 को शास० आई० टी० आई० [illegible] के पीसक कक्ष में मिटिंग हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुवे।

1, सर्वश्री विनोद पिल्लाई —
2, श्री टी० बोस —
3, श्री राजेश श्रीवास्तव —
4, श्री एस० के० मिश्रा —
5 श्री, अनिल गाड़िया
6, श्री टी० एस० धुन (व० बाजार)
7) श्री रमाकांत दुबे — Ramakant
8) श्री बी. के. साहू — B [illegible]

30/4 30/04/12

साथ ही निम्न एजेंडा पर चर्चा हुई

1 फिटर व्यवसाय के संबंधीकरण हेतु चर्चा

सचिव के द्वारा फिटर व्यवसाय के संबंधीकरण चर्चा करते हुवे माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा कि पूर्व में फिटर व्यवसाय में एक लेथ मशीन कमी को दर्शाते हुवे संबंधीकरण नही किया गया था जिस पर अध्यक्ष महोदय ने लेथ मशीन खरीद करने हेतु संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण से अनुमति हेतु कहा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया और सभी सदस्यों ने अनुमति मिलने पर क्रय करने हेतु सलाह किया। जिसका सुझाव प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सुझाव पेटी में लिखा गया था, जिसको अमल को तैयार किया गया।

2 नवीन भवन में प्रारंभ किये जाने वाले नवीन व्यवसायों के संबंधीकरण हेतु चर्चा

सचिव द्वारा एजेंडा बिन्दु 2 पर चर्चा प्रारंभ करते हुवे बताया गया कि आई० एम० सी० द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन व्यवसाय के संबंधीकरण होना है जिस पर कहा गया एनेक्चर III भरकर संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर में जमा करें साथ ही समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किया जावे